



राजपत्र, हिमाचल प्रदेश

हिमाचल प्रदेश राज्य शासन द्वारा प्रकाशित

शिमला, शनिवार, 18 सितम्बर, 2010/27 भाद्रपद, 1932

हिमाचल प्रदेश सरकार

गृह विभाग

अधिसूचना

शिमला-2, 26 अगस्त, 2010

संख्या गृह (ए)ए(1)2/2001.—हिमाचल प्रदेश की राज्यपाल, हिमाचल प्रदेश राज्य में यथा लागू पंजाब पुलिस नियम, 1934 के नियम 1.10 के साथ पठित दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 की धारा 2 के खण्ड (ध) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए इस अधिसूचना के जारी किए जाने की तारीख से निम्नलिखित अनुसूची की स्तम्भ संख्या (3) में यथा वर्णित ग्रामों को स्तम्भ संख्या (4) में वर्णित पुलिस थाना के स्थानीय क्षेत्र से स्तम्भ संख्या (5) में वर्णित पुलिस चौकी के स्थानीय क्षेत्रों के लिए अन्तर्गत करती है; अर्थात् :—

अनुसूची

क्रम संख्या	जैल का नाम	स्तम्भ संख्या 2 में विनिर्दिष्ट जैल में अन्तर्विष्ट ग्रामों के नाम	पुलिस थाना जिससे, इस अधिसूचना द्वारा यह अन्तरित किया गया है	पुलिस चौकी जिसमें इसके पश्चात् यह सम्मिलित होगा
1	2	3	4	5
1.	ग्राम पंचायत, कूड्डू	1. सराजी 2. नालिया 3. सालना 4. सायरी 5. दरकोट 6. डाडी-रावत 7. बटाड़ 8. कूड्डू 9. नडाल	पुलिस थाना, जुब्बल	पुलिस चौकी, कूड्डू (पी० एस० ओ० डी० शीर्ष के अर्न्तगत)
2.	ग्राम पंचायत, अन्टी	1. छाजपुर 2. चिंग 3. धरमाणा 4. दखरान्तू 5. सनसोग 6. छिकली 7. गोड़मू 8. कनोट 9. सभाड़ 10. बोहराड़ 11. अन्टी	—यथोपरि—	—यथोपरि—
3.	ग्राम पंचायत, झाल्टा	1. खरशाल 2. चौरी 3. झाल्टा 4. धानसर 5. शिलोली 6. राजकोट	—यथोपरि—	—यथोपरि—
4.	ग्राम पंचायत, शिलटाडी	1. क्वालटा 2. शिलटाडी 3. कुभराड	—यथोपरि—	—यथोपरि—
5.	ग्राम पंचायत, पन्द्राणु	1. सैज 2. बढाडा 3. मोहराल 4. दडमाणा 5. शरण 6. पन्द्राणु	पुलिस थाना, जुब्बल	पुलिस चौकी, कूड्डू (पी० एस० ओ० डी० शीर्ष के अर्न्तगत)
6.	ग्राम पंचायत, सोलंग	1. सासकिर 2. शाशन 3. पटाला	—यथोपरि—	—यथोपरि—

		4. नगाली 5. जाखडू 6. बिशनी 7. नदली 8. सैज 9. सोलंग		
--	--	---	--	--

इस पुलिस चौकी का सृजन निम्नलिखित शर्तों के अधीन होगा :—

1. कर्मचारिवृन्द की अपेक्षा (मांग) पुलिस विभाग की विद्यमान संख्या में से आंतरिक व्यवस्था के माध्यम से पूर्ण की जा सकेगी ।

2. यह भी सुनिश्चित किया जाए कि पी0एस0ओ0डी0 शीर्ष के अर्न्तगत स्थापित पुलिस चौकी पर उपगत किया गया व्यय सम्बद्ध संगठन अर्थात् हिमाचल प्रदेश पावर कारपोरेशन लिमिटेड से वसूल किया जाए क्योंकि हिमाचल प्रदेश पावर कारपोरेशन लिमिटेड ने इस आशय पर वचनबद्धता दी है कि पुलिस चौकी में अभिनियोजित किए जाने वाले कर्मचारिवृन्द की बावत, भाड़े के आवास के किराए की लागत सहित समस्त व्यय अर्थात् वेतन भत्ते, छुट्टी और पेंशन अंशदान इत्यादि उनके द्वारा वहन किया जाएगा और जब कभी भी आपातकाल में अपेक्षित हो परियोजना प्राधिकारियों द्वारा वाहन (यान) भी उपलब्ध करवाया जाएगा ।

3. पुलिस चौकी सावड़ा कूड्डु परियोजना के प्रवर्तन (कमीशनिंग) तक जारी रहेगी और तत्पश्चात् इसका निरन्तरीकरण हिमाचल प्रदेश पावर निगम लिमिटेड की पूर्व सहमति से होगा ।

आदेश द्वारा,
हस्ताक्षरित /—
प्रधान सचिव ।

[Authoritative English text of this Department Notification No. Home (A) A (1)2/2001, dated 26 -8-2010 as required under Articles 348(3) of the Constitution of India].

HOME DEPARTMENT

NOTIFICATION

Shimla-2, 26th August, 2010

No. Home(A)A(1)2/2001.—In exercise of the powers conferred by clause (s) of Section 2 of the Code of Criminal Procedure, 1973 read with Rule 1.10 of Punjab Police Rules, 1934 as applicable in the State of Himachal Pradesh, the Governor, Himachal Pradesh is pleased to transfer the Villages as enumerated in Column No. (3) from the local area of the Police Station mentioned in column (4) to the local areas of the Police Post mentioned in column (5) of the Schedule given below thereof with effect from the date of the issue of this Notification:—

SCHEDULE

Sl. No.	Name of Zail	Name of Villages contained in Zail specified in Column No. 2	Police Station from which transferred by this notification	Police Post in which hereinafter included
1	2	3	4	5
1.	Gram anchayat, Kuddu	1. Saraaji 2. Nalia	P. S. Jubbal	Police Post Kuddu (under head

		3. Salna 4. Shyri 5. Dharkot 6. Daddi Rawat 7. Batad 8. Kuddu 9. Naddal		PSOD)
2.	Gram anchayat, Aunty	1. Chhajpur 2. Ching 3. Dharmana 4. Dhakrantu 5. Sansog 6. Chikli 7. Godmu 8. Knot 9. Samod 10. Bohard 11. Aunty	—do—	—do—
3.	Gram anchayat, Jhalta	1. Kharshall 2. Chourri 3. Jhalta 4. Dhansar 5. Shiloli 6. Rajkot	—do—	—do—
4.	Gram anchayat, Shiltaddi	1. Kawalta 2. Shiltaddi 3. Kumrad	—do—	—do—
5.	Gram anchayat, Pandranu	1. Sainj 2. Badada 3. Mohral 4. Darmana 5. Sharan 6. Pandranu	—do—	—do—
6.	Gram anchayat, Solang	1. Saskir 2. Shashan 3. Patalla 4. Nagaali 5. Jkharu 6. Bishni 7. Nandli 8. Sainj 9. Solang	P. S. Jubbal	Police Post Kuddu (under head PSOD)

The creation of this Police Post is subject to following conditions:—

1. The requirement of staff may be met out from the existing strength of the Police Department through internalization.

2. It may also be ensured that the expenditure incurred on the Police Post established under head PSOD may be recovered from the concerned organization *i.e.* Himachal Pradesh Power Corporation Ltd. because HPPCL has given undertaking to the effect that all the expenditure *i.e.* pay allowances, leave and pension contribution etc. in respect of staff to be deployed in the Police

Post including the cost of rent of hired accommodation will be borne by them and the vehicle will also be provided by the Project authorities as and when required in emergency.

3.. The Police Post will continue till the commissioning of Sawra Kuddu Project only and its continuation thereafter will be with the prior concurrence of HPPCL.

By order,
Sd/-
Principal Secretary.

कार्मिक विभाग (नियुक्ति- I)

अधिसूचना

शिमला-2, 14 सितम्बर, 2010

सं० पर(एपी-बी)बी(2)-8/99.—हिमाचल प्रदेश की राज्यपाल, भारत के संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग के परामर्श से, इस विभाग की समसंख्यक अधिसूचना, तारीख 27-10-2006 द्वारा अधिसूचित हिमाचल प्रदेश अधीनस्थ सेवाएं चयन बोर्ड, अधीक्षक ग्रेड- II, वर्ग- II (अराजपत्रित), भर्ती और प्रोन्नति नियम, 2006 में और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती हैं, अर्थात् :-

1. संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ.—(1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम हिमाचल प्रदेश अधीनस्थ सेवाएं चयन बोर्ड अधीक्षक ग्रेड- II, वर्ग- II (अराजपत्रित) भर्ती और प्रोन्नति (प्रथम संशोधन) नियम, 2010 है ।

(2) ये नियम राजपत्र, हिमाचल प्रदेश में प्रकाशित किए जाने की तारीख से प्रवृत्त होंगे ।

2. उपाबन्ध “क” का संशोधन.—हिमाचल प्रदेश अधीनस्थ सेवाएं चयन बोर्ड, अधीक्षक ग्रेड- II, वर्ग- II (अराजपत्रित) भर्ती और प्रोन्नति नियम, 2006 के, उपाबन्ध “क” में, —

(i) स्तम्भ संख्या-2 के सामने विद्यमान उपबन्ध के स्थान पर निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात् :-
“4 (चार) ; और

(ii) स्तम्भ संख्या-4 के सामने विद्यमान उपबन्ध के स्थान पर निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात् :-
“ पे बैण्ड 10300-34800 रूपए जमा 4200/- रूपए ग्रेड पे । ” ।

आदेश द्वारा,
राजवन्त सन्धू
मुख्य सचिव ।

[Authoritative English Text of this Department Notification No. Per(AP.B)B(2)-8/99 dated 14-09-2010 as required under clause (3) of Article 348 of Constitution of India].

PERSONNEL DEPARTMENT (AP. II)

NOTIFICATION

Shimla-171 002, 14th September, 2010

No. Per(AP.B) B(2)-8/99.—In exercise of the powers conferred by proviso to Article 309 of the Constitution of India, the Governor, Himachal Pradesh, in consultation with Himachal

Pradesh Public Service Commission, is pleased to make the following rules further to amend the Himachal Pradesh Subordinate Services Selection Board, Superintendent Grade-II, Class-II (Non-Gazetted) Recruitment and Promotion Rules, 2006 notified vide this Department Notification of even number dated 27-10-2006, namely: -

1. Short title and Commencement.—(1) These rules may be called the Himachal Pradesh Subordinate Services Selection Board, Superintendent Grade-II, Class-II (Non-Gazetted) Recruitment and Promotion (First Amendment) Rules, 2010.

(2) These rules shall come into force from the date of publication in the Rajpatra, Himachal Pradesh.

2. Amendment of Annexure “A” .— In Annexure “A” to the Himachal Pradesh Subordinate Services Selection Board, Superintendent Grade-II, Class-II (Non-Gazetted) Recruitment and Promotion Rules, 2006,---

(i) for the existing provision against Col. No.2, the following shall be substituted, namely: -

“4 (Four)” ; and

(ii) for the existing provision against Col. No.4, the following shall be substituted, namely: -

“Rs. 10300-34800 plus Rs.4200/- Grade Pay”

By order,
RAJWANT SANDHU,
Chief Secretary.

कार्मिक विभाग (नियुक्ति- I I)

अधिसूचना

शिमला-2, 17 सितम्बर, 2010

सं० पर(एपी-बी)बी(2)-7/99(एस०ए०).—हिमाचल प्रदेश की राज्यपाल, भारत के संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग के परामर्श से इस विभाग की समसंख्यक अधिसूचना तारीख 24-02-2001 द्वारा अधिसूचित हिमाचल प्रदेश अधीनस्थ सेवाएं चयन बोर्ड, वरिष्ठ सहायक, वर्ग-III (अराजपत्रित) भर्ती एवं प्रोन्नति नियम, 2001 में और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती हैं, अर्थात् :-

1. संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ.—(1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम हिमाचल प्रदेश अधीनस्थ सेवाएं चयन बोर्ड, वरिष्ठ सहायक, वर्ग-III (अराजपत्रित) भर्ती और प्रोन्नति (प्रथम संशोधन) नियम, 2010 है ।

(2) ये नियम राजपत्र, हिमाचल प्रदेश में प्रकाशित किए जाने की तारीख से प्रवृत्त होंगे ।

2. उपाबन्ध “क” का संशोधन.—हिमाचल प्रदेश अधीनस्थ सेवाएं चयन बोर्ड, वरिष्ठ सहायक, वर्ग-III (अराजपत्रित) भर्ती एवं प्रोन्नति नियम, 2001 के, उपाबन्ध “क” में,—

- (i) स्तम्भ संख्या-2 के सामने विद्यमान उपबन्ध के स्थान पर निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात् :-
 “ 14 (चौदह) ” ; और
- (ii) स्तम्भ संख्या-4 के सामने विद्यमान उपबन्ध के स्थान पर निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात् :-
 “ पे बैण्ड 10300-34800 रूपए जमा 3800/- रूपए ग्रेड पे ” ।

आदेश द्वारा,
 राजवन्त सन्धू,
 मुख्य सचिव।

[Authoritative English Text of this Department Notification No. Per(AP.B)B(2)-7/99(SA) dated 17-09-2010 as required under clause (3) of Article 348 of Constitution of India].

PERSONNEL DEPARTMENT (AP.II)

NOTIFICATION

Shimla-171 002, 17th September, 2010

No. Per(AP.B) B(2)-7/99(SA).—In exercise of the powers conferred by proviso to Article 309 of the Constitution of India, the Governor, Himachal Pradesh, in consultation with Himachal Pradesh Public Service Commission, is pleased to make the following rules further to amend the Himachal Pradesh Subordinate Services Selection Board, Senior Assistant, Class-III (Non-Gazetted) Recruitment and Promotion Rules, 2001 notified vide this Department Notification of even number dated 24-02-2001, namely: -

1. Short title and Commencement.—(1) These rules may be called the Himachal Pradesh Subordinate Services Selection Board, Senior Assistant, Class-III (Non-Gazetted) Recruitment and Promotion (First Amendment) Rules, 2010.

(2) These rules shall come into force from the date of publication in the Rajpatra, Himachal Pradesh.

2. Amendment of Annexure “A”.—In Annexure “A” to the Himachal Pradesh Subordinate Services Selection Board, Senior Assistant, Class-III (Non-Gazetted) Recruitment and Promotion Rules, 2001,---

- (i) for the existing provision against Col. No.2, the following shall be substituted, namely: -
 “ 14 (Fourteen) ” ; and
- (ii) for the existing provision against Col. No.4, the following shall be substituted, namely: -
 “Rs. 10300-34800 plus Rs.3800/- Grade Pay”

By order,
 RAJWANT SANDHU,
 Chief Secretary.

निर्वाचन विभाग

अधिसूचना

शिमला-171009, 17 सितम्बर, 2010

संख्या 5-15/2010-ईएलएन.—हिमाचल प्रदेश की राज्यपाल, भारत के संविधान के अनुच्छेद-309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग के परामर्श से, अधिसूचना संख्या: 5-26/94-ईएलएन., तारीख 1-2-2000 द्वारा अधिसूचित, हिमाचल प्रदेश निर्वाचन विभाग, सहायक मुख्य निर्वाचन अधिकारी, वर्ग.८ (राजपत्रित), भर्ती एवं प्रोन्नति नियम, 2000 का और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती हैं, अर्थात्:-

1. **संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ.**—(i) इन नियमों का संक्षिप्त नाम हिमाचल प्रदेश निर्वाचन विभाग सहायक मुख्य निर्वाचन अधिकारी, वर्ग-I (राजपत्रित) भर्ती और प्रोन्नति (चतुर्थ संशोधन) नियम, 2010 है।

(ii) ये नियम राजपत्र, हिमाचल प्रदेश में प्रकाशित किए जाने की तारीख से प्रवृत्त होंगे।

2. **उपाबन्ध-“क” का संशोधन.**—हिमाचल प्रदेश निर्वाचन विभाग, सहायक मुख्य निर्वाचन अधिकारी, वर्ग-I (राजपत्रित) भर्ती एवं प्रोन्नति नियम, 2000 के उपाबन्ध-“क” में :-

स्तम्भ संख्या-4 के सामने विद्यमान उपबन्धों के स्थान पर निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात् :-

“15600-39100/-रूपए जमा 6600/-रूपए ग्रेड पे”

आदेश द्वारा,
हस्ताक्षरित /—
सचिव (निर्वाचन)।

[Authoritative English text of this Department's Notification No.5-15/2010-ELN, dated 17-9-2010 as required under clause (3) of Article 348 of the Constitution of India].

ELECTION DEPARTMENT

NOTIFICATION

Shimla-171009, 17th September, 2010

No. 5-15/2010-ELN.—In exercise of the powers conferred by proviso to Article-309 of the Constitution of India, the Governor, Himachal Pradesh, in consultation with the Himachal Pradesh Public Service Commission, is pleased to make the following rules further to amend the Himachal Pradesh Election Department, Assistant Chief Electoral Officer, Class-I (Gazetted), Recruitment and Promotion Rules, 2000, notified vide Notification No. 5-26/94-ELN, dated 1-2-2000, namely:-

1. **Short title and commencement.**— (i) These rules may be called the Himachal Pradesh Election Department, Assistant Chief Electoral Officer, Class-I (Gazetted), Recruitment and Promotion (4th Amendment) Rules, 2010.

(ii) These rules shall come in to force from the date of publication in the Rajpatra, Himachal Pradesh.

2. Amendment of Annexure-“A”.—In Annexure-“A” to the Himachal Pradesh Election Department, Assistant Chief Electoral Officer, Class-I (Gazetted), Recruitment and Promotion Rules, 2000;-

For the existing provisions against column No.4, the following shall be substituted, namely:-

“Rs. 15600-39100 Plus 6600/- Grade Pay”

By order,
Sd/-
Secretary (Elections).

No.SML-DEV. (Notary Public)/2005-
Office of the Deputy Commissioner,
Shimla, Distt. Shimla H.P.

Dated: Shimla-1 the th *Sept*, 2010.

NOTIFICATION

Whereas sh. Rakesh Kumar Raghuvanshi and Sh.Monhar
lal Advocates have submitted their applications for appointment as a
Notary Public under Rule 4 of the Notaries Rules, 1956 in Shimla District.

Therefore, I the undersigned in exercise of the powers
vested in me vide Government of H.P. Notification No.LLR-107-323/56-II
dated 27.9.77, hereby issue notice under rule 6 of the Notaries Rule 1956 for
the information of all concerned for inviting objections if any, within
fourteen days from the date of publication of this notification regarding
appointment of the above mentioned Advocates as a Notary Public in
Shimla District.

+

Endst: No.As Above. 689

Sd-
District Magistrate, Shimla.
Dated..17.09.2010

न्यायालय श्री देवा सिंह नेगी (हि0 प्र0 से0), उप-मण्डल दण्डाधिकारी, भरमौर, जिला चम्बा (हि0 प्र0)

श्रीमती सन्तोष कुमारी धर्मपत्नी स्व0 श्री तिलक राज, निवासी बनून, डा0 चनौहता, उप-तहसील होली, जिला चम्बा, हिमाचल प्रदेश।

बनाम

आम जनता

प्रार्थना-पत्र जेर धारा 13 (3) जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969.

श्रीमती सन्तोष कुमारी धर्मपत्नी स्व0 श्री तिलक राज, निवासी बनून, डा0 चनौहता, उप-तहसील होली, जिला चम्बा ने प्रार्थना-पत्र के साथ शपथ-पत्र इस न्यायालय में दिया है कि उसकी लड़की प्रिया देवी जिसकी जन्म तिथि 15-10-2005 है, पंचायत अभिलेख चनौहता में दर्ज नहीं है। अब दर्ज करने बारे न्यायालय से अनुरोध किया है।

अतः इस इशतहार द्वारा सर्वसाधारण एवं आम जनता को सूचित किया जाता है कि यदि उपरोक्त प्रिया देवी का नाम व जन्म तिथि पंचायत अभिलेख चनौहता में दर्ज करने बारे किसी का कोई उजर-एतराज हो तो वह अपना उजर एतराज असालतन या वकालतन इशतहार जारी होने के एक मास के भीतर इस न्यायालय में पेश कर सकता है अन्यथा आगामी कार्यवाही अमल में लाई जाएगी।

इशतहार आज दिनांक 26-8-2010 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी हुआ।

मोहर।

देवा सिंह नेगी,
उप-मण्डल दण्डाधिकारी,
भरमौर, जिला चम्बा (हि0 प्र0)।

ब अदालत श्री एस0 एल0 बन्सल, सहायक समाहर्ता प्रथम श्रेणी, रामपुर बुशैहर, जिला शिमला,
हिमाचल प्रदेश

श्रीमती सुभद्रा पुत्री श्री प्रेम सिंह, निवासी ग्राम कनै, तहसील रामपुर बुशैहर, जिला शिमला,
हिमाचल प्रदेश .. प्रार्थी।

बनाम

आम जनता

.. प्रतिवादी।

प्रार्थना-पत्र बाबत मकफूल-उल-खबरी श्री प्रेम सिंह, ग्राम कनै।

नोटिस बनाम आम जनता।

श्रीमती सुभद्रा पुत्री श्री प्रेम सिंह, निवासी ग्राम कनै, तहसील रामपुर बुशैहर, जिला शिमला, हिमाचल प्रदेश ने इस अदालत में एक आवेदन-पत्र मय शपथ-पत्र गुजारा है कि मकफूल-उल-खबरी श्री प्रेम सिंह पुत्र श्री इन्द्र राम, निवासी कनै, तहसील रामपुर जो अरसा 25 वर्षों से गुम है तथा उनका कोई अता-पता नहीं है तथा अब प्रेम सिंह की विरासत का इन्तकाल करवाना चाहती है।

अतः इस इशतहार के माध्यम से श्री प्रेम सिंह व सर्वसाधारण जनता, मुहाल कनै का सूचित किया जाता है कि यदि श्री प्रेम सिंह की विरासत का इन्तकाल उनके जायज वारसान के नाम तस्दीक करने बारे स्वयं श्री प्रेम सिंह व किसी भी व्यक्ति का कोई एतराज हो तो वह अपना एतराज तिथि 6-10-2010 को प्रातः

10.00 बजे या इससे पूर्व अदालत हजा में असालतन या वकालतन हाजिर आकर दर्ज करवा सकता है। बाद गुजरने मियाद कोई भी उजर/एतराज काबिले समायत न होगा तथा नियमानुसार विरासत इन्तकाल दर्ज करवाने के आदेश पारित कर दिए जाएंगे।

आज दिनांक 6-9-2010 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत द्वारा जारी किया गया।

मोहर।

एस0 एल0 बन्सल,
सहायक समाहर्ता प्रथम श्रेणी,
रामपुर बुशैहर, जिला शिमला, हिमाचल प्रदेश।

ब अदालत श्री एस0 एल0 बन्सल, सहायक समाहर्ता प्रथम श्रेणी, रामपुर बुशैहर, जिला शिमला,
हिमाचल प्रदेश

श्रीमती शान्ति देवी पुत्री श्रीमती देवकू, निवासी ग्राम सराहन, तहसील रामपुर बुशैहर, जिला शिमला,
हिमाचल प्रदेश .. प्रार्थी।

बनाम

आम जनता

. . प्रतिवादी।

प्रार्थना-पत्र बाबत मकफूल-उल-खबरी श्री चन्द्र सिंह, ग्राम सराहन।

नोटिस बनाम आम जनता।

श्रीमती शान्ति देवी पुत्री श्रीमती देवकू, निवासी ग्राम सराहन, तहसील रामपुर बुशैहर, जिला शिमला, हिमाचल प्रदेश ने इस अदालत में एक आवेदन-पत्र मय शपथ-पत्र गुजारा है कि मकफूल-उल-खबरी श्री चन्द्र सिंह पुत्र श्रीमती देवकू, निवासी सराहन, तहसील रामपुर जो अरसा 20 वर्षों से घर से लापता है तथा उनके जीवित रहने बारे कोई जानकारी नहीं है तथा अब चन्द्र सिंह की विरासत का इन्तकाल करवाना चाहती है।

अतः इस इशतहार के माध्यम से श्री चन्द्र सिंह व सर्वसाधारण जनता, मुहाल सराहन को सूचित किया जाता है कि यदि श्री चन्द्र सिंह की विरासत का इन्तकाल उनके जायज वारसान के नाम तस्दीक करने बारे स्वयं श्री चन्द्र सिंह व किसी भी व्यक्ति का कोई एतराज हो तो वह अपना एतराज तिथि 6-10-2010 को प्रातः 10.00 बजे या इससे पूर्व अदालत हजा में असालतन या वकालतन हाजिर आकर अपनी आपत्ति दर्ज करवा सकता है। बाद गुजरने मियाद कोई भी उजर/एतराज काबिले समायत न होगा तथा नियमानुसार विरासत इन्तकाल दर्ज करवाने के आदेश पारित कर दिए जाएंगे।

आज दिनांक 6-9-2010 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी किया गया।

मोहर।

एस0 एल0 बन्सल,
सहायक समाहर्ता प्रथम श्रेणी,
रामपुर बुशैहर, जिला शिमला, हिमाचल प्रदेश।

ब अदालत श्री एस0 एल0 बन्सल, कार्यकारी दण्डाधिकारी, रामपुर बुशैहर, जिला शिमला,
हिमाचल प्रदेश

श्री ए0 जी0 बाजवा, डी0 जी0 एम0, भारत हाईडल प्रोजैक्ट प्रा0 लि0, झाकड़ी, तहसील रामपुर बुशैहर,
जिला शिमला, हिमाचल प्रदेश प्रार्थी।

बनाम

आम जनता

प्रतिवादी।

प्रार्थना-पत्र जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1978 की धारा 13 (3) के अन्तर्गत मृत्यु तिथि पंजीकरण
बारे।

नोटिस बनाम आम जनता।

श्री ए0 जी0 बाजवा, डी0 जी0 एम0, भारत हाईडल प्रोजैक्ट प्रा0 लि0, झाकड़ी, तहसील रामपुर, जिला
शिमला, हिमाचल प्रदेश ने इस अदालत में प्रार्थना-पत्र मय शपथ-पत्र मय एफ0 आई0 आर0 नं0 45 दिनांक
22-6-2010 पुलिस थाना जगातखाना व पोस्ट-मार्टम रिपोर्ट एम0 जी0 एम0 एस0 कम्पलैक्स, खनेरी गुजारा
है कि जतिन देवरी पुत्र श्री राधयूम, गांव गुण्डवा, तहसील कामपुर, जिला नगौंग, आसाम, हाल कर्मचारी भारत
हाईडल प्रोजैक्ट प्रा0 लि0, झाकड़ी की मृत्यु दिनांक 22-6-2010 कसौली एडिट में जख्मी होने के कारण
शिमला ले जाते हुए एच0 एस0 फिलिंग स्टेशन खनेरी के साथ हुई है परन्तु उक्त व्यक्ति की मृत्यु की रिपोर्ट
ग्राम पंचायत रचोली, तहसील रामपुर बुशैहर, जिला शिमला, हिमाचल प्रदेश के अभिलेख में समय पर दर्ज न
है।

अतः इस इशतहार द्वारा सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति को जतिन देवरी
पुत्र श्री राधयूम, गांव गुण्डवा, तहसील कामपुर, जिला नगौंग, आसाम, हाल कर्मचारी भारत हाईडल प्रोजैक्ट
प्रा0 लि0, झाकड़ी की मृत्यु तिथि ग्राम पंचायत रचोली, तहसील रामपुर बुशैहर के अभिलेख में दर्ज करने बारा
किसी भी प्रकार की आपत्ति है तो वह दिनांक 6-10-2010 को प्रातः 10.00 बजे या इससे पूर्व अदालत हजा
में असालतन या वकालतन हाजिर आकर अपनी आपत्ति दर्ज करवा सकता है। बाद गुजरने मियाद कोई भी
उजर/एतराज काबिले समायत न होगा तथा नियमानुसार मृत्यु तिथि दर्ज करवाने के आदेश पारित कर दिए
जाएंगे।

आज दिनांक 6-9-2010 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत द्वारा जारी किया गया।

मोहर।

एस0 एल0 बन्सल,
कार्यकारी दण्डाधिकारी,
रामपुर बुशैहर, जिला शिमला, हिमाचल प्रदेश।

ब अदालत श्री एस0 एल0 बन्सल, कार्यकारी दण्डाधिकारी, रामपुर बुशैहर, जिला शिमला,
हिमाचल प्रदेश

श्री फकीर मोहम्मद पुत्र श्री सुभा, निवासी गांव शौडा, चक खखरोला, तहसील रामपुर बुशैहर, जिला
शिमला, हिमाचल प्रदेश प्रार्थी।

बनाम

आम जनता

प्रतिवादी।

प्रार्थना-पत्र जेर धारा 13 (3) जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969.

नोटस बनाम आम जनता।

श्री फकीर मोहम्मद पुत्र श्री सुभा, निवासी गांव शौडा, चक खखरोला, तहसील रामपुर बुशैहर, जिला शिमला, हिमाचल प्रदेश ने इस अदालत में प्रार्थना-पत्र मय शपथ-पत्र गुजारा है कि उनकी पुत्री जन्त बीबी की जन्म तिथि 15-5-1996, पुत्री बेगम की जन्म तिथि 10-11-2002 व पुत्री युनस की जन्म तिथि 15-3-2005 का जन्म उक्त दर्शाई गई तिथियों को घर पर ही हुआ परन्तु ग्राम पंचायत के अभिलेख में दर्ज न है।

अतः इस इशतहार द्वारा सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति को उपरोक्त बच्चों की जन्म तिथियां दर्ज करने बारा कोई उजर या एतराज हो तो वह दिनांक 6-10-2010 को या इससे पूर्व अदालत हजा में हाजिर आकर अपनी आपत्ति दर्ज करवा सकता है। बाद गुजरने मियाद कोई भी उजर/एतराज काबिले समायत न होगा तथा नियमानुसार जन्म तिथियां दर्ज करवाने के आदेश पारित कर दिए जाएंगे।

आज दिनांक 1-9-2010 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत द्वारा जारी किया गया।

मोहर।

एस0 एल0 बन्सल,
कार्यकारी दण्डाधिकारी,
रामपुर बुशैहर, जिला शिमला, हिमाचल प्रदेश।

ब अदालत श्री एस0 एल0 बन्सल, सहायक समाहर्ता प्रथम श्रेणी, रामपुर बुशैहर, जिला शिमला, हिमाचल प्रदेश

नं0 मुकद्दमा : 65/10, 68/10, 69/10.

तारीख दायर : 1-5-10

श्री सुन्दर सिंह पुत्र श्री सेवा राम, गांव कुरनू, तहसील रामपुर बुशैहर, जिला शिमला, हिमाचल प्रदेश प्रार्थी।

बनाम

1. श्रीमती सुषमा देवी पुत्री श्री देवी सिंह, निवासी ग्राम कुरनू, तहसील रामपुर बुशैहर, जिला शिमला, हाल आबाद गांव धर्मपुर, तहसील कसौली, जिला सोलन, हिमाचल प्रदेश।
2. श्री जय सिंह पुत्र श्री नैन सिंह, निवासी ग्राम कुरनू, तहसील रामपुर बुशैहर, जिला शिमला
3. श्री ज्ञान चन्द पुत्र श्री चैतरू, निवासी ग्राम कुरनू, तहसील रामपुर बुशैहर, जिला शिमला
4. श्री खुशी राम पुत्र श्रीमती जाउ, निवासी ग्राम जराशी, तहसील रामपुर बुशैहर, जिला शिमला
5. श्री मोहन सिंह पुत्र श्रीमती जाउ, निवासी ग्राम जराशी, तहसील रामपुर बुशैहर, जिला शिमला
6. श्री थेपी राम पुत्र श्रीमती जाउ, निवासी ग्राम जराशी, तहसील रामपुर बुशैहर, जिला शिमला
7. श्री मंगत राम पुत्र श्रीमती जाउ, निवासी ग्राम जराशी, तहसील रामपुर बुशैहर, जिला शिमला
8. श्री रमेश कुमार पुत्र श्री मुर्की लाल, निवासी ग्राम दलोग, तहसील रामपुर बुशैहर, जिला शिमला
9. श्रीमती निर्मला देवी पुत्री श्री मुर्की लाल, निवासी ग्राम दलोग, तहसील रामपुर बुशैहर, जिला शिमला
हाल आबाद गांव मधारा, डा0 देवीधार, तहसील चढ़गांव, जिला शिमला।
10. श्रीमती उर्मिला देवी पुत्री श्री मुर्की लाल, निवासी ग्राम दलोग, तहसील रामपुर बुशैहर, जिला शिमला,
हाल आबाद गांव बचाड़ी, डा0 देवीधार, तहसील चढ़गांव, जिला शिमला।

11. श्री कपिल देव पुत्र श्री ज्ञान चन्द, निवासी ग्राम कुरनू, तहसील रामपुर बुशैहर, जिला शिमला
12. श्री डिम्पल पुत्र श्री ज्ञान चन्द, निवासी ग्राम कुरनू, तहसील रामपुर बुशैहर, जिला शिमला
13. श्रीमती लता कुमारी पुत्री श्री ज्ञान चन्द, निवासी ग्राम कुरनू, तहसील रामपुर बुशैहर, जिला शिमला
14. श्री सीता राम पुत्र श्री फेदू, निवासी ग्राम कुरनू, तहसील रामपुर बुशैहर, जिला शिमला
15. श्री बली राम पुत्र श्री फेदू, निवासी ग्राम कुरनू, तहसील रामपुर बुशैहर, जिला शिमला
16. श्री शिव राम पुत्र श्री फेदू, निवासी ग्राम कुरनू, तहसील रामपुर बुशैहर, जिला शिमला
17. श्रीमती ठाकुर देवी पुत्री श्री फेदू, निवासी ग्राम कुरनू, तहसील रामपुर बुशैहर, जिला शिमला
18. श्री मैना देवी पत्नी स्व० श्री फेदू, निवासी ग्राम कुरनू, तहसील रामपुर बुशैहर, जिला शिमला
19. श्री चुन्जी राम पुत्र श्री इन्द्र, निवासी ग्राम कुरनू, तहसील रामपुर बुशैहर, जिला शिमला
20. श्री श्याम सिंह पुत्र श्री कमला नन्द, निवासी ग्राम कुरनू, तहसील रामपुर बुशैहर, जिला शिमला
21. श्री कौल राम पुत्र श्री कमला नन्द, निवासी ग्राम कुरनू, तहसील रामपुर बुशैहर, जिला शिमला
22. श्रीमती सुदामा देवी पुत्र श्री कमला नन्द, निवासी ग्राम कुरनू हाल आबाद पत्नी श्री जुगल किशोर, निवासी ग्राम पेलन, तहसील रामपुर बुशैहर, जिला शिमला।
23. श्री शोभा राम पुत्र श्री शांकरू, निवासी ग्राम कुरनू, तहसील रामपुर बुशैहर, जिला शिमला।
24. श्री हिरा सिंह पुत्र श्री शांकरू, निवासी ग्राम कुरनू, तहसील रामपुर बुशैहर, जिला शिमला।
25. श्री मस्त राम पुत्र श्री शांकरू, निवासी ग्राम कुरनू, तहसील रामपुर बुशैहर, जिला शिमला।
26. श्रीमती पुतू देवी उपनाम कमला देवी पुत्री श्री शांकरू, ग्राम कुरनू, हाल आबाद गांव करशोली, तहसील रामपुर बुशैहर, जिला शिमला।
27. श्रीमती पीटू पुत्री श्री शांकरू, ग्राम कुरनू हाल आबाद गांव दलोग, तहसील रामपुर बुशैहर, जिला शिमला।
28. श्रीमती अभिलाषा पुत्री श्री शांकरू, ग्राम कुरनू हाल आबाद गांव सेरी-मझाली, तहसील रामपुर बुशैहर, जिला शिमला प्रतिवादी।

दरखास्त तकसीम जेर धारा 123 हि० प्र० भू-राजस्व अधिनियम, 1954 बाबत अराजी खसरा नं० 74, रकबा तादादी 0-16-21 है० कृष्ट व अकृष्ट मुन्दर्जा खाता/खतौनी नं० 3/4, अराजी कित्ते 12, रकबा तादादी 01-37-05 है० कृष्ट व अकृष्ट मुन्दर्जा खाता/खतौनी नं० 16/36 ता 42 व अराजी कित्ते 30, रकबा तादादी 3-18-22 है० मुन्दर्जा खाता/खतौनी नं० 4/5 ता 10, वाका चक कुरनू, तहसील रामपुर बुशैहर, जिला शिमला (हि० प्र०)।

प्रार्थी श्री सुन्दर सिंह पुत्र श्री सेवा राम, गांव कुरनू, तहसील रामपुर बुशैहर, जिला शिमला, हिमाचल प्रदेश के अराजी खसरा नं० 74, रकबा तादादी 0-16-21 है० कृष्ट व अकृष्ट मुन्दर्जा खाता/खतौनी नं० 3/4, अराजी कित्ते 12, रकबा तादादी 01-37-05 है० कृष्ट व अकृष्ट मुन्दर्जा खाता/खतौनी नं० 16/36 ता 42 व अराजी कित्ते 30, रकबा तादादी 3-18-22 है० मुन्दर्जा खाता/खतौनी नं० 4/5 ता 10 वाका चक कुरनू, तहसील रामपुर बुशैहर, जिला शिमला (हि० प्र०) के तकसीम प्रकरण इस अदालत में विचाराधीन है जिसमें प्रतिवादी नं० 1 ता 28 की तामील बार-बार समन जारी करने के उपरान्त भी असालतन नहीं हो पा रही है। जिस कारण इस अदालत को यकीन हो गया है कि इनकी तामील साधारण तरीके से होनी सम्भव प्रतीत नहीं होती है। इन प्रतिवादी की तामील असालतन न होने के कारण तकसीम प्रकरण लम्बित चले आ रहे हैं। अतः प्रतिवादी नं० 1 ता 28 को इस इशतहार द्वारा सूचित किया जाता है कि वे दिनांक 6-10-2010 को प्रातः 10.00 बजे असालतन या वकालतन पैरवी मुकद्दमा हेतु हाजिर अदालत आवें। हाजिर न आने की सूरत में यह समझा जावेगा कि आपको इन खातों की तकसीम बारा किसी भी प्रकार का उजर व एतराज नहीं है तथा यकतरफा कार्यवाही अमल में लाई जावेगी।

आज दिनांक 4-9-2010 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी किया गया।

मोहर।

एस० एल० बन्सल,
सहायक समाहर्ता प्रथम श्रेणी,
रामपुर बुशैहर, जिला शिमला, हिमाचल प्रदेश।

ब अदालत श्री एस0 एल0 बन्सल, सहायक समाहर्ता प्रथम श्रेणी, रामपुर बुशैहर, जिला शिमला,
हिमाचल प्रदेश

श्री बनारसी दास व श्री बाल कृष्ण पुत्र श्री आसा राम, मेन बाजार रामपुर बुशैहर, जिला शिमला,
हिमाचल प्रदेश प्रार्थी।

बनाम

आम जनता

प्रतिवादी।

दरखास्त दुरुस्ती नाम खाता/खतौनी नं0 63/95 व 46/136, वाका चक रचोली, तहसील रामपुर बुशैहर,
जिला शिमला, हिमाचल प्रदेश।

नोटिस बनाम आम जनता।

दरखास्त नाम दुरुस्ती इस अदालत में प्रार्थीगण श्री बनारसी दास व श्री बाल कृष्ण पुत्र श्री आसा राम, मेन बाजार रामपुर बुशैहर, जिला शिमला, हिमाचल प्रदेश ने इस आशय के साथ प्रस्तुत की है कि उसके पिता का नाम माल कागजात के खाता/खतौनी नं0 63/95 व 46/136 में श्री आत्मा राम दर्ज है जो गलत दर्ज है। इसलिए माल कागजात में आत्मा राम के स्थान पर आसा राम दर्ज करवाना चाहता है। प्रार्थीगण ने अपने पिता के नाम की दुरुस्ती की पुष्टि हेतु ब्यान हल्फिया संलग्न दरखास्त कर रखा है।

अतः आम जनता को इस इश्तहार द्वारा सूचित किया जाता है कि श्री आसा राम नाम राजस्व अभिलेख में आत्मा राम दर्ज है के स्थान पर श्री आसा राम दर्ज करने बारा किसी व्यक्ति का किसी प्रकार का उजर व एतराज हो तो वह दिनांक 6-10-2010 को या इससे पूर्व असालतन या वकालतन हाजिर अदालत आकर अपना उजर व एतराज पेश करे। इसके उपरान्त कोई उजर व एतराज न काबिले समायत होगा।

आज दिनांक 1-9-2010 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी किया गया।

मोहर।

एस0 एल0 बन्सल,
सहायक समाहर्ता प्रथम श्रेणी,
रामपुर बुशैहर, जिला शिमला, हिमाचल प्रदेश।

ब अदालत श्री एस0 एल0 बन्सल, सहायक समाहर्ता प्रथम श्रेणी, रामपुर बुशैहर, जिला शिमला,
हिमाचल प्रदेश

श्री पूर्व देव पुत्र श्री उदम राम, गांव पनोली, तहसील रामपुर बुशैहर, जिला शिमला, हिमाचल प्रदेश
प्रार्थी।

बनाम

आम जनता

प्रतिवादी।

दरखास्त दुरुस्ती नाम खाता/खतौनी नं0 96/164, वाका चक पदमनगर, तहसील रामपुर बुशैहर, जिला शिमला, हिमाचल प्रदेश।

नोटिस बनाम आम जनता।

दरखास्त नाम दुरुस्ती इस अदालत में प्रार्थी श्री पूर्व देव पुत्र श्री उदम राम, गांव पनोली, तहसील रामपुर बुशैहर, जिला शिमला, हिमाचल प्रदेश ने इस आशय के साथ प्रस्तुत की है कि उसका व उसके पिता का नाम जमाबन्दी वर्ष 2004-05 चक पदमनगर के खाता/खतौनी नं० 96/164 में पूर्ण देव पुत्र श्री उदय राम दर्ज कागजात माल है जो गलत दर्ज है। इसलिए कागजात माल में पूर्ण देव पुत्र उदय राम के स्थान पर पूर्व देव पुत्र उदम राम दर्ज करवाना चाहता है। प्रार्थी ने अपने नाम की दुरुस्ती की पुष्टि हेतु ब्यान हल्फिया संलग्न दरखास्त कर रखा है।

अतः आम जनता को इस इशतहार द्वारा सूचित किया जाता है कि श्री पूर्व देव पुत्र उदम राम जिसका नाम राजस्व अभिलेख में पूर्ण देव तथा पिता का नाम उदय राम दर्ज है के स्थान पर श्री पूर्व देव व पिता का नाम उदम राम दर्ज करने बारा किसी व्यक्ति का किसी प्रकार का उजर व एतराज हो तो वह दिनांक 6-10-2010 को या इससे पूर्व असालतन या वकालतन हाजिर अदालत आकर अपना उजर व एतराज पेश करे। इसके उपरान्त कोई उजर व एतराज न काबिले समायत होगा।

आज दिनांक 1-9-2010 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी किया गया।

मोहर।

एस० एल० बन्सल,
सहायक समाहर्ता प्रथम श्रेणी,
रामपुर बुशैहर, जिला शिमला, हिमाचल प्रदेश।

ब अदालत श्री एस० एल० बन्सल, सहायक समाहर्ता प्रथम श्रेणी, रामपुर बुशैहर, जिला शिमला,
हिमाचल प्रदेश

श्री ठाकर दास पुत्र श्री मीनू, गांव झाकड़ी, तहसील रामपुर बुशैहर, जिला शिमला, हिमाचल प्रदेश
प्रार्थी।

बनाम

आम जनता

प्रतिवादी।

दरखास्त दुरुस्ती नाम खाता/खतौनी नं० 63/136, वाका चक झाकड़ी, तहसील रामपुर बुशैहर, जिला शिमला, हिमाचल प्रदेश।

नोटिस बनाम आम जनता।

दरखास्त नाम दुरुस्ती इस अदालत में प्रार्थी श्री ठाकर दास पुत्र श्री मीनू, गांव झाकड़ी, तहसील रामपुर बुशैहर, जिला शिमला, हिमाचल प्रदेश ने इस आशय के साथ प्रस्तुत की है कि उसका व उसके पिता का नाम जमाबन्दी वर्ष 2005-06 चक झाकड़ी के खाता/खतौनी नं० 63/136 में ठाकरी पुत्र श्री मीनू दर्ज कागजात माल है जो गलत दर्ज है। इसलिए माल कागजात में ठाकरी पुत्र मीनू के स्थान पर ठाकुर दास उर्फ ठाकरी पुत्र मीनू दर्ज करवाना चाहता है। प्रार्थी ने अपने नाम की दुरुस्ती की पुष्टि हेतु ब्यान हल्फिया संलग्न दरखास्त कर रखा है।

अतः आम जनता को इस इशतहार द्वारा सूचित किया जाता है कि श्री ठाकुर दास जिसका नाम राजस्व अभिलेख में ठाकरी दर्ज है के स्थान पर श्री ठाकुर दास उर्फ ठाकरी दर्ज करने बारा किसी व्यक्ति का किसी प्रकार का उजर व एतराज हो तो वह दिनांक 6-10-2010 को या इससे पूर्व असालतन या वकालतन

हाजिर अदालत आकर अपना उजर व एतराज पेश करे। इसके उपरान्त कोई उजर व एतराज न काबिले समायत होगा।

आज दिनांक 1-9-2010 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी किया गया।

मोहर।

एस0 एल0 बन्सल,
सहायक समाहर्ता प्रथम श्रेणी,
रामपुर बुशैहर, जिला शिमला, हिमाचल प्रदेश।

In the Court of Shri Layak Ram Negi, Sub-Divisional Magistrate, Shimla (R), District Shimla, Himachal Pradesh

Smt. Prem Devi w/o Shri Surjeet Singh, r/o Village Salana, P. O. Salana, Tehsil and District Shimla, Himachal Pradesh .. Applicant.

Versus

General Public

.. Respondent.

Whereas Smt. Prem Devi w/o Shri Surjeet Singh, r/o Village Salana, P. O. Salana, Tehsil and District Shimla has filed an application alongwith an affidavit, Resolution of Panchayat in the court of undersigned under section 15 of the Birth and Death Registration Act, 1969 to correct the name of applicant Prem Devi in place of Meena Devi in the record of G. P. Thari.

Hence, this proclamation is issued to the general public if they have any objection/claim regarding correction of name of Smt. Prem Devi (in place of Meena Devi) w/o Shri Surjeet Singh, r/o Village Salana, P. O. Salana, Tehsil and District Shimla, in the record of Gram Panchayat Thari same may be file their claim/objection on or before one month of publication of this notice in Govt. Gazette in this court, failing which necessary orders will be passed.

Given today the 8th September, 2010 under my signature and seal of the court.

Seal.

LAYAK RAM NEGI,
Sub-Divisional Magistrate, Shimla (R),
District Shimla, Himachal Pradesh.

ब अदालत श्री देवी चन्द ठाकुर सहायक समाहर्ता प्रथम श्रेणी, तहसील पधर, जिला मण्डी, हिमाचल प्रदेश

1. श्री सुन्दर लाल पुत्र श्री थेपडा, गांव मसवाहण, डा0 उरला, तहसील पधर, जिला मण्डी, हिमाचल प्रदेश, 2. श्री रमेश कुमार पुत्र श्री थेपडा, गांव मसवाहण, डा0 उरला, तहसील पधर, जिला मण्डी, हिमाचल प्रदेश .. प्रार्थी।

बनाम

आम जनता

.. प्रत्यार्थी।

प्रार्थना—पत्र राजस्व अभिलेख में नाम दुरुस्ती बारे।

श्री सुन्दर लाल पुत्र श्री थेपडा, गांव मसवाहण व श्री रमेश कुमार पुत्र श्री थेपडा, गांव मसवाहण, डा0 उरला, तहसील पधर, जिला मण्डी ने शपथी-पत्र सहित इस अदालत में प्रार्थना-पत्र गुजारा है व प्रार्थना की है कि उनके पिता का नाम मुहाल वडवाहण के राजस्व अभिलेख व ग्राम पंचायत उरला के रिकार्ड में थेपडा दर्ज है जो कि सही है लेकिन मुहाल मसवाहण में दादी की वसीयत के इन्तकाल के समय हरी सिंह नाम गलत दर्ज हुआ है। प्रार्थी ने इस अदालत से प्रार्थना की है कि उनके पिता का नाम हरी सिंह की जगह थेपडा दर्ज करने के लिखित आदेश देने की कृपा करें।

अतः इस इशतहार द्वारा आम जनता को सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति को उपरोक्त नाम दुरुस्ती बारा कोई एतराज हो तो वह असालतन या वकालतन दिनांक 20-9-2010 को प्रातः 10.00 बजे इस अदालत में प्रस्तुत करें। उपस्थित न होने की सूरत में एक पक्षीय कार्यवाही अमल में लाई जाकर प्रार्थना-पत्र पर यथोचित आदेश पारित कर दिए जाएंगे।

आज दिनांक 4-9-2010 को हमारे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी हुआ।

मोहर।

देवी चन्द ठाकुर,
सहायक समाहर्ता प्रथम श्रेणी,
पधर, जिला मण्डी, हिमाचल प्रदेश।

ब अदालत श्री रमन कुमार शर्मा, हि0प्र0से0, समाहर्ता, उपमण्डल कण्डाघाट, जिला सोलन, हिमाचल प्रदेश

अभियोग संख्या 1/2010

तारीख दायरा 7-5-2010

हिमाचल प्रदेश सरकार

. वादी।

बनाम

1. सुमित कुमार पुत्र श्री श्याम सुन्दर, निवासी गढोग, डाकघर सपरून, तहसील व जिला सोलन।
2. विजय कुमार पुत्र श्री नोबत राय कौडा, निवासी मकान नं0 83, सैक्टर 16 चण्डीगढ़।

. प्रतिवादीगण।

Determination of value of sale deed No. 62/2008 dated 28-2-2008 amounting to Rs. 76,375/-

उपरोक्त वर्णित मुकद्दमा में प्रतिवादी नं0 2 श्री विजय कुमार पुत्र श्री नोबत राय कौडा, निवासी मकान नं0 83, सैक्टर 16 चण्डीगढ़ को इस न्यायालय द्वारा कई बार समन भेजे गये। इसके अलावा उक्त प्रतिवादी को पंजीकृत पत्र के माध्यम से भी सूचित किया गया परन्तु प्रतिवादी हाजिर अदालत नहीं आया।

अतः इस न्यायालय को विश्वास हो चुका है कि उपरोक्त वर्णित प्रतिवादी नं0 2 की साधारण तरीके से तामील होना असम्भव है। अतः इस इशतहार के माध्यम से उपरोक्त प्रतिवादी को सूचित किया जाता है कि वह दिनांक 22-9-2010 को प्रातः 10.00 बजे असालतन या वकालतन हाजिर न्यायालय होकर इस प्रकरण की पैरवी करे, अन्यथा गैर हाजिरी की सूरत में आपके विरुद्ध एक पक्षीय कार्यवाही अमल में लाई जाएगी।

आज दिनांक 20-8-2010 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी हुआ।

मोहर।

रमन कुमार शर्मा, हि0प्र0से0,
समाहर्ता, उपमण्डल कण्डाघाट,
जिला सोलन, हिमाचल प्रदेश।